

रोज़ा ख़तम करने की दुआ

इफ़्तार के आदाब :- फर्माया कि जो रोज़: खुर्मे (खजूर) से खोले (इफ़्तार करे), तो उसकी नमाज़ का सवाब चार सौ नमाज़ से ज़्यादा होगा और पानी से रोज़: खोलने पर दिल के गुनाह धुलते हैं। जो कुनकुने पानी से रोज़: खोलता है, तो उसका मेअदा मज़बूत होता है और आँखों की रौशनी ज़्यादा होती है और गुनाह धुल जाते हैं।

हज़रत रसूल-ए-ख़ुदा (स०) रूतब (खजूर) या हलवा या सब्ज़ी से रोज़: खोलते थे और जब यह न मिलता था, तब हल्के गर्म (कुनकुने) पानी से रोज़: खोलते थे। फर्माया कि जो रोज़: खोलने के वक़्त एक लुकमा रोटी किसी ग़रीब को दे, तो खुदा उसके गुनाहों को बख़्श देगा और जनाब-ए-इस्माईल (अ०) की औलादों में से एक गुलाम को आज़ाद करने का सवाब देगा। दिन और रात में बेहतरीन अमाल कुर्आन-ए-मजीद की तिलावत है। क्योंकि वह इस महीने में नाज़िल हुआ। हर चीज़ की एक बहार है, कुर्आन पढ़ने की बहार रमज़ान के महीने में है। फर्माया सलवात, इस्तिग़फ़ार और ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत कहे और दिन व रात के नाफलों को न छोड़े। ताक (अर्थात् वह तारीखें जो दो से विभाजित न हों) रातों में गुस्ल सुन्नत है। खासतौर से पहली, पन्द्रह, सत्रह शब-ए-क़द्र और आखिरी रात में। फर्माया सहर (सुबह रोज़: रखने से पहले का खाना) और इफ़्तार (शाम रोज़: खोलने के वक़्त का खाना) के बाद सूर:-ए-इन्ना अनज़ल्लाह पढ़े और इफ़्तार के वक़्त कहे :-

“या अज़ीमो या अज़ीमो अनता इलाही ला इलाहा ली ग़ैरोका इग़फ़िर ले यज़्ज़नबल अज़ीम इन्नाहू ला मग़फ़ेरुज़्ज़नबल अज़ीमा इल्ललअज़ीम”

{अर्थात् ए बुजुर्ग़ ज़ात ए बुजुर्ग़ ज़ात तू मेरा खुदा है कोई खुदा नहीं मेरे लिए सिवाये तेरे बख़्श दे तू मेरे बड़े गुनाह को यकीनन नहीं बख़्श सकती बड़े गुनाह को मगर बहुत बड़ी ज़ात।}

यह भी मिलता है कि इफ़्तार के वक़्त कहे :-

“अल्लाहुम्मा लका सुमतो व अला रिज़केका अफ़तरतो व अलैका तवक्कलतो”

{अर्थात् खुदावन्दा तेरे लिए मैंने रोज़: रखा और तेरे रिज़क पर इफ़्तार किया और तेरे ही ऊपर मैंने भरोसा किया है।}

खुदा उसको उन लोगों का सवाब अता करता है, जिन्होंने उस दिन रोज़: रखा है और जब खाना सामने आये, तो कहे :-

“अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रिज़केका अफ़तरना फ़ताक़ब्बल मिन्ना इन्नाका

www.IslamInHindi.org

अनुमति : अब्बास बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित "तोहफतुल-अवाम" से लिया गया ! अपनी किताबों को खरीदने के लिए

संपर्क करें abbasbookagency@yahoo.com / अथवा एसेमेस भेजें : +91-941-510-2990

रोज़ा ख़तम करने की दुआ

अन्तस समीअुल अलीम"

{अर्थात् खुदावन्दा तेरे लिए रोज़ः रखा हमने और तेरे दिये हुवे रिज़क से इफ़्तार किया (रोज़ः खोला) हमने। अतः तू इसको हमसे कुबूल कर यकीनन तू ही सुनने वाला है और जानने वाला।}

और जब पहला लुकमा उठये, तो कहे :-

"बिस्मिल्ला हिरहमा निरहीम यावासेअल मग़फ़ेरातिग़फ़िरली"

{अर्थात् शुरूअ करता हूँ खुदा के नाम से, जो बड़ा रहमान और रहीम है, ए वसअ (बहुत ज़्यादाः) बरिख़्शाले, मुझे बरिख़्श दे।}

www.IslamInHindi.org

अनुमति : अब्बास बुक एजेंसी द्वारा प्रकाशित "तोहफतुल-अवाम" से लिया गया ! अपनी किताबों को खरीदने के लिए

संपर्क करें abbasbookagency@yahoo.com / अथवा एसेमेस भेजें : +91-941-510-2990